



12th November, 2024

BSE Limited

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai 400 001 **National Stock Exchange of India Limited**

Exchange Plaza, Plot No. C/1, G Block, Bandra – Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051

Trading Symbol: KANPRPLA

Scrip Code: 507779

Sub.: Submission of newspaper publication

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30(1) of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations 2015, please find enclosed herewith copies of newspaper publication published today i.e. on 12th November, 2024 regarding Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended 30.09.2024.

Kindly take this on record and oblige.

Thanking you,

Yours Faithfully, For KANPUR PLASTIPACK LTD.

(Ankur Srivastava) Company Secretary











WARREN TEA LIMITED

Registered Office: 8th Floor, Johar Building, P-1, Hide Lane, Kolkata - 700 073 Tel: 033 2236 0025, CIN: L01132WB1977PLC271413 Email: corporate@warrentea.com, Website: www.warrentea.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024

(Figures in ₹ lakhs)									
		STANDALONE		CONSOLIDATED					
PARTICULARS	Quarter Ended on 30.09.2024	Year to Date Ended on 30.09.2024	Quarter Ended on 30.09.2023	Quarter Ended on 30.09.2024	Year to Date Ended on 30.09.2024	Quarter Ended on 30.09.2023			
Total Income from Operations	47	124	210	47	124	210			
Net Profit for the period before Tax	(37)	(43)	109	(37)	(43)	109			
Net Profit for the period after Tax	(37)	(43)	109	(37)	(43)	109			
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	20	40	109	(7)	(53)	86			
Equity Share Capital	1195	1195	1195	1195	1195	1195			
Earnings per Share (of ₹10/- each) - Basic and Diluted Earnings (In Rupees)	(0.31)	(0.36)	0.91	(0.54)	(1.14)	0.71			

Kolkata

11th November, 2024

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended on 30th September, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.cse-india.com) and on the Company's website

Warren Tea Limited

NOTICE

Tata Motors Limited

Registered Office: 24, Bombay House, Hoi

Mody Street, Mumbai - 400 001

NOTICE is hereby given that the certificate[s]

for the undermentioned securities of the

ompany have been lost/misplaced and the

holder[s] of the said securities / applicant[s]

has/have applied to the Company to issue

Any person who has a claim in respect of the

said securities should lodge such claim with

the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate[s]

Name[s] of holder[s] and Jt. Holder[s], if any]: Manju Vaish; Kind of Securities and face value: Rs. 2.00/-; No. of Securities: 950; Distinctive number[s]:

Date: 12.11.2024

Name[s] of holder[s] / Applicant[s]

Manju Vaish

duplicate certificate[s].

vithout further intimation

6769731 to 6770680.

Place: Delhi

Vinay K. Goenka **Executive Chairman**

SASHWAT TECHNOCRATS LIMITED

Read.Office: Office No. 14. First Floor, Plumber House, 557, JSS Road, Chira Bazar, Mumbai- 400002. CIN: L24220MH1975PLC018682, Tel No. 22016021/22016031 Email id: sashwat.technocrats@gmail.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2024

Part I (Rs.in Lakhs)										
Sr.			Quarter End	led	Half Y	Year Ended				
No.	PARTICULARS	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited			
		30-Sep-24	30-June-24	30-Sep-23	30-Sep-24	30-Sep-23	31-Mar-24			
1	Total Income from Operation	(0.06)	1.88	1.93	1.82	5.94	19.46			
2	Net Profit for the Period (before Tax, Exceptional Items and / or Extraordinary Items)	(1.48)	(2.68)	0.80	(4.16)	0.03	10.30			
3	B Net Profit / (Loss) for the Period (before Tax but after Exceptional Items and / or Extraordinary Items)		(2.68)	0.80	(4.16)	0.03	10.30			
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(1.48)	(2.68)	0.80	(4.16)	0.03	10.30			
5	Total Comprehensive Income (Comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax))	(1.48)	(2.68)	0.80	(4.16)	0.03	10.30			
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs.10/-)	30.62	30.62	30.62	30.62	30.62	30.62			
7	Earning per share (of Rs. 10/- each) (not annualised)									
	a) Basic b) Diluted	(0.48) (0.48)	(0.88) (0.88)	0.26 0.26	(1.36) (1.36)	0.01 0.01	3.36 3.36			

- 1 The above Unaudited results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 11th November, 2024 by the Auditors of the Company, in accordance with SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015.
- 2 The above is an extract of the detailed format of quarterly results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the guarterly financial results are available on the Stock Exchanges websites i.e. www.bseindia.com and http://sashwattechnocrats.com/

For & on behalf of the Board of Directors For Sashwat Technocrats Limited

Rohit Doshi Director DIN: 03065137 Place: Mumbai Date: 11.11.2024

MARATHON NEXTGEN REALTY LIMITED

CIN - L65990MH1978PLC020080

Regd.Office: Marathon Futurex, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (West), Mumbai 400 013 Tel: 9122-67248484 Fax: 9122-67728408 E-mail: cs@marathonrealty.com Website: www.marathonnextgen.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR

	(₹ in lakhs - Except EPS)										
0			Standalone		Consolidated						
Sr.	Particulars	Quarter	Half Year	Quarter	Quarter	Half Year	Quarter				
No.		ended	ended	ended	ended	ended	ended				
		30 September	30	30	30	30	30				
	l s		September 2024	September 2023	September 2024	September 2024	September 2023				
		2024 Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited				
1	Total revenue from operations	5,324.41	12,931.87	7,612.38	14,598.96	30,820.18	12,902.63				
2	Other Income	1,584.29	2,220.00	480.80	1,974.44	3,058.92	1,045.46				
3	Net Profit/(Loss) for the period (before tax and Exceptional items)	3,182.47	5,678.10	2,536.73	4,851.14	9,258.65	3,461.42				
4	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	3,182.47	5,678.10	2,536.73	4,851.14	9,258.65	3,461.42				
5	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	2,616.01	4,463.90	1,873.87	3,921.58	7,195.54	2,712.88				
6	Share of Profit From partnership firm	1,024.33	1,530.18	-	1,024.33	1,530.18	736.55				
7	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,640.04	5,993.48	1,871.27	4,945.49	8,724.88	3,445.13				
8	Equity Share Capital	2,560.41	2,560.41	2,348.56	2,560.41	2,560.41	2,348.56				
9	Earning Per Share (of Rs. 5/-each) (for continuing and discontinued operations)										
	a) Basic	7.11	11.71	4.00	9.46	16.67	7.32				
	b) diluted	7.10	11.70	3.78	9.45	16.66	6.91				

- Note The above results were reviewed by the Audit Committee and take on record by the Board of Directors at their meeting held or
- The above extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Regulations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available of the Stock Exchanges website at www.bseindia.com, www.nseindia.com and Company's website www.marathonnextgen.com

For MARATHON NEXTGEN REALTY LTD

CHETAN R SHAH CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR DIN: 00135296

PUBLIC NOTICE

Mr. Subhash Bakshi, Member of Ashray Co-op. Hsg. Soc. Ltd., having address at Manish Park, Ashray Co-op. Hsg. Soc. Ltd., Pump House, Andheri (E), Mumbai-**4010 093** and holding flat No.E/704 died on 2.1.2012 without making any

The Society hereby invites claims or objections from the heir or heirs or other claimants/objector(s) to the transfer of the said shares and interest of the deceased member in the capital/property of the society within a period of 15 days from the publication of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his/her/their claims/ objections for transfer of shares and interest of the deceased member in the said capital/property. If no claims /objections are received within the period prescribed above, the society shall be free to deal with the shares and interest of the deceased member in the said capital /property in such n the said capital /property in such manner as is provided under the bye manner as is provided under the bye-laws of the society. The claims/ objections, if any, received by the society for transfer of shares and interest of the deceased member in the said capital /property shall be dealt with in the manner provided under the bye-laws of the society.

under the bye-laws of the society.

Mrs. Usha Subhash Bakshi, Wife of deceased Mr.Subhash Bakshi has reported to the society that the original share certificate NO.40 for 5 (five) shares, bearing nos from 211 to 215 has been lost/misplaced and is not traceable and made an application for duplicate share certificate.

The Society hereby invites claims or objections for issuance of duplicate share certificate within a period of 15 days from the publication of this notice, with copies of such documents and other proofs in support of his/her/ their claims/objections for issuance of duplicate share certificate to the Secretary of the society to the above address i.e.,

If no claims/objections are received within the period prescribed above, the society shall be free to issue duplicate share certificate in such manner as is provided under the bye laws of the society.

A copy of the registered bye-laws of the society is available for inspection by the claimants/objectors, in the office of the society between 11 a.m. and 6 p.m. from the date of publication of the notice till the date of expiry of its period.

Place: Mumbai Date: 12th November, 2024

Daljeet Singh Lall - Advocate Mob:- 9224479345



Providing Solutions for Industrial Bulk Packaging CIN: L25209UP1971PLC003444

Regd. Office D-19-20, Panki, Industrial Area, Kanpur - 208022

Ph.: +91 512 2691113-6; Fax: +91 512 2691117 Email: secretary@kanplas.com; website: www.kanplas.com

EXTRACT OF THE CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2024

		·	·	(₹in Lacs)
<u></u>		Quarter	Quarter	Half Year
SL.	PARTICULARS	Ended	Ended	Ended
NO.		30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024
<u> </u>		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1.	Total Income from operations (net)	15,361.06	12,243.63	28,987.32
2.	Net Profit from Ordinary Activities before Tax	249.86	312.62	74.16
3.	Net Profit from Ordinary Activities after Tax	166.34	223.99	28.84
4.	Net Profit for the period after Tax (after	166.34	223.99	28.84
	Extraordinary Items)			
5.	Total Comprehensive Income for the period	171.04	223.53	28.84
6.	Equity Share Capital	2,147.38	2,147.38	2,147.38
7.	Earning per Share (before / after extraordinary			
l	items) (of Rs. 10/-each) (not annualised)			
l	-Basic	0.77	1.04	0.13
	-Diluted	0.77	1.04	0.13
	Key Standalone Financial Information fo	r the above m	entioned peri	ods
1.	Total Income from operations (net)	15,357.80	12,156.49	28,985.85

3.

Profit Before Tax

Profit After Tax

- The above results of the Company were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 11.11.2024 and a Limited Review was carried by the Statutory Auditors of the Company.
- The figures of previous period/year have been re-grouped/re-arranged and/or recast wherever found
- The above is the extracts of the detailed format of unaudited quarterly financial results as filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full Quarterly/Year to date Financial Results are available on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com, www.nseindia.com and on the Company's website www.kanplas.com.

For and on behalf of the Board of Directors

315.07

226.44

72.98

27.66

227.82

144.30

Place: Kanpur Dated: 11.11.2024

Sd/-(Manoi Agarwal) Chairman cum Managing Director

THE COSMOS

Recovery & Write-off Department, Region-II Correspondence Address : Horizon Building, 1st Floor, Ranade Road & Gokhale Road Junction. Gokhale Road (North), Dadar (West). Mumbai 400 028. Phone No. 022-69476012/28/57/5

E-AUCTION SALE NOTICE UNDER MCS ACT, 1960 & RULE 107 OF MCS RULES 1961 FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale notice for sale of immovable property under Maharashtra Co-operative societies Act 1960. Rul 107 of MCS Rules 1961. Notice is given to the public in general and in particular to the Borrower(s), Mortgagor(s) Guarantors(s) and security providers named below ("Obligors") that the below described immovable proper Mortgaged/Charged to the erstwhile Maratha Sahakari Bank which is taken in physical possession by Recover Officer. will be sold **"as is where is, as is what is and whatever there is basis & without recourse"** for recover of below mentioned amounts due to the Secured Creditor from the Obligors against the below given upset price and the EMD. The sale of below mentioned immovable Property shall be conducted by way of E-Auction through Website i.e https://www.cosmosbank.com/auction-notice.aspx AND Auctioneer Website i.e https://cosmosbank.auctiontiger.net.

Erstwhile Maratha Sahakari Bank Ltd which is amalgamated with The Cosmos Co-op Bank Ltd as per RBI orde

dated 24.05.2025 w.e.i. 29.05.20	23.			
Name of the Account, Borrower & Guarantors	Amount 0/s as on 31.12.2023	I. Upset Price II. EMD III. Incremental Value	Date/Time of E-Auction	Inspection date & time
M/s. Gagangiri Kokan Paryatan (Prop. Mr. Sanjay Shrikant Sawant) Guarantors: 1) Mr. Venkatesh Hariharan Iyer, 2)Mr. Noormohammad Hanifsamari	A/c No.	I. Rs.2,07,42,000/- II. Rs. 20,00,000/- III. Rs. 50,000/-	17.12.2024 11.00 a.m. to 12.00 noon	On 2nd December 2024 10.30 a.m. to 12.30 p.m.

Description of the property - Village Bambarde Off. Kalsuli, Taluka - Kudal, Dist - Sindhudurga, Bearing Survey No.2, Hissa No.9 (New 2A/9A), and Survey No.2, Hissa No.10, (As per mortgage deed Land Area – 7610 sq. mtr out of that 30 sq. mtr. is under road widening hence remaining plot area 7580 sq. mtr. and as per 7/12 extract area 7540 sq. mtr. along with building structure on the said Land 960 sq. mtr.)

Terms & Conditions

- 01. The E-Auction is being held on "as is where is, as is what is and whatever there is basis & without recourse"
 02. Earnest Money Deposit (EMD) shall be deposited through RTGS/NEFT fund transfer to credit of The Cosmos Co Op. Bank Ltd "Auction EMD Account" No. COS370219, IFSC Code: COSB0000012 or Demand Draft in the name of The Cosmos Co-op Bank Ltd, Payable at Mumbai on or before 16.12.2024 up to 5.00 p.m. The Bids received after the prescribed date and time will not be accepted
- Before Submitting the Bids. Bidders should satisfy the interest & dues payable by them in respect of the secured assets in question and later on no objection of any kind shall be entertained in this regard. 04. The successful bidder shall be required to pay 15% of the finalized bid amount including Earnest Money depos
- immediately and balance 85% amount within 30 days i.e. on or before 16.01.2025 till 4.00 p.m. 05. In case, the successful bidder fails to pay 15% of the bid amount as mentioned in clause 4 above, the Earnes
- Money deposited will stand forfeited. Similarly, if the successful bidder fails to pay the balance amount on or before 16.01.2025, the amount paid till date will stand forfeited and the property shall be put up again for sale and re-solo at a later date through fresh Auction.
- 06. All charges, levies, taxes, Property Tax of Rs. 27,144/- as on 12.09.2024. Assessment Tax and for any other liability/outgoing accrued against the property shall be borne by the successful bidder. Present accrued liabilities on the property are not known. The intending bidders should make own independent inquiries regarding the encumbrances, title of the properties and to inspect and satisfy themselves. Property can be inspected strictly on the above mentioned date and time.
- 07. Intending Bidders may avail training for online bidding from M/s. E-Procurement Technologies Ltd./Auction Tiger B-704, Wall Street - II, Opp. Orient Club, Nr. Gujarat College, Ellis Bridge, Ahmedabad - 380006 Gujarat (India) Contact Nos.: Mr. Praveenkumar Thevar - 9722778828 - 079-35022145/149/182, praveen.thevar@auctiontiger.ne or soni@auctiontiger.net AND Email Id's-support@auctiontiger.net & maharashtra@auctiontiger.net, Contac No.-9265562818/19.
- 08. This publication is also Statutory Notice of 30 days to the borrowers/owners/guarantors of the above property 09. The EMD amount of unsuccessful bidder will be returned on closure of the E-Auction shall not carry any Interest
- 10. Bidders should submit copy of PAN Card/Adharcard and any documents of Residence or Business Proof alon with the Tender Form
- 11. It shall be responsibility of the successful bidder to pay 1% T.D.S of the sale amount under Section 194(1A) of the Income Tax Act & shall submit the proof there of to Recovery officer
- 12. The Recovery Officer reserves his right to accept or reject any or all offers, and also postpone / cancel the auction without assigning any reason and also to modify the terms and conditions of the Auction Sale without prior notice. SPECIAL INSTRUCTION & CAUTION

Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Cosmos bank no the service provider will be responsible for any lapses/failure (internet failure, power failure etc.) on the part of the vendor in such cases. In order to ward off such contingent situation, the bidders are requested to make all the necessary arrangements/alternatives such as back-up power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.

> (Mr. Devadatta Sawant) RECOVERY OFFICER, Mumbai (U/S-156,MCS Act 1960 & & Rule 107 of MCS Rule 1961) Attached to The Cosmos Co-op Bank Limited



USHDEV INTERNATIONAL LIMITED

Date: 12.11.2024

Regd. Off.: New Harileela House, 6th Floor, Mint Road, Fort, Mumbai 400 001 Email: info@ushdev.com Website: www.ushdev.com CIN Number: L40102MH1994PLC078468

Extract of Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30th Sentember, 202

	Extract of Standardie and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2024													
	Rs. In Lakh (Except Earnings per Equity Share data)													
Γ			STANDALONE						CONSOLIDATED					
			Quarter Ended			Half Year Ended Year Ended		Quarter Ended			Half Year Ended		Year Ended	
	Sr. No.	Particulars	30.09.2024 (Unaudited)	30.06.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.06.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	30.09.2024 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)
Γ	1.	Total Income from Operations	641.18	367.62	965.02	1,008.81	1,442.14	1,671.84	641.18	367.62	965.02	1,008.81	1,442.14	1,671.84
1	2.	Net Profit / (Loss) for the period before Tax	(72.60)	(31.19)	(247.08)	(103.78)	(310.40)	(973.48)	(72.60)	(31.19)	(247.08)	(103.78)	(310.40)	(973.77)
Т	3.	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(72.17)	(31.19)	(247.08))	(103.36)	(310.40)	(973.48)	(72.17)	(31.19)	(247.08)	(103.36)	(310.40)	(973.77)
Т	4.	Total Comprehensive Income for the period	(0.14)	-	0.98	(0.14)	0.98	2.73	(0.14)	-	0.98	(0.14)	0.98	2.73
	5.	Equity Share Capital (Face Value of Rs.1/- per share)	3,384.94	3,384.94	3,384.94	3,384.94	3,384.94	3,384.94	3,384.94	3,384.94	3,384.94	3,384.94	3,384.94	3,384.94
	6.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)												i
		as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		(322,482.53)	(321,511.78)	(322,482.53)	(321,511.78)	(322,482.53)	(322,483.06)	(322,483.06)	(321,511.90)	(322,483.06)	(321,511.90)	(322,483.06)
	7.	Earnings per equity share (Face Value of Rs.1/- per share): 1. Basic & Diluted	(0.02)	(0.01)	(0.07)	(0.03)	(0.09)	(0.29)	(0.02)	(0.01)	(0.07)	(0.03)	(0.09)	(0.29)

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly ended Financial Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter and year ended Financial Results are available on the website of BSE limited (www.bseindia.com). The same is also made available on the website of the Company (www.Ushdev.com)

For Ushdev International Limited

Radha M Rawat (Implementing Agency (IMA) Authorised Signatory) (for political parties to publish in the newspapers, social media platforms & website of the party)

Information regarding individuals with pending criminal cases, who have been selected as candidates, along with the reasons for such selection, as also as to why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates

Format C-7

As per the Commission's directions issued in pursuance of the Order dated 13.02.2020 of the Hon'ble Supreme Court in contempt petition(C) no. 2192 of 2018 in WP(C) no. 536 of 2011) ame of Political Party: SHIVSENA

Name of the Election: VIDHAN SABHA

lame of State/ UT: MAHARASHTRA

(1) Name of the Constituency - 157-BHANDUP VIDHAN SABHA
Name of the candidate - SHRI ASHOK DHARMRAJ PATIL

Criminal antecedents Nature of the offences 1) Section IPC 341, 323, 504, 506(2) 34 2) Section MPA 37 (3) 3) Section MPA 37(1) (5), 37(3) sub 135 4) Section IPC 143, 144, 147, 149, 323, 504 5) Section IPC 466, 467, 468, 471, 474, 420 and Arms Act 120(B), 34 1) 177/MISC/2019 Case no 2) Not Available 3) 39/PS/2008 4) 444/PW/2006 5) 100878/PW/2009 Name of the Court 1) Judicial Magistrate First Class 53rd Court, Mulund, 2) Judicial Magistrate First Class 53rd Court, Mulund 3) Judicial Magistrate First Class 53rd Court, Mulund 4) Judicial Magistrate First Class 53rd Court, Mulund 5) Judicial Magistrate First Class 37rd Court, Esplanade, Mumbai Whether charges have been framed or not (Yes/No) NOT APPLICABLE Date of conviction, if any NOT APPLICABLE Details of punishment undergone, if any NOT APPLICABLE Any other information required to be given The selected candidate is a very senior sincere and The reasons for the selectior of the candidate. Selection dedicated party worker who has already been on shall be with reference to the various important positions as elected member of qualifications, achievements MLA-2014 TO 2019, CARPORATOR - 2012-2017 and merit of the candidate and not mere "winnability" a the polls (not more than 100 words) Reasons as to why other As a senior party worker he had an edge over other individuals without criminal individuals considering the fact that whatever charge antecedents could not be are alleged in the charge sheet have no substance ar

* In the case of election to Council of States or States or election to Legislative Council by MLAs, mention the election concerned in place of name of Constituency.

selected as candidates (not

Shri. Ashok Dharmraj Patil

are purely with a vindictive approach and persona vendetta being waged by his political enemies. The case is long pending and party believes that there will

be no adverse outcome against the alleged accused.

V.R. Woodart Limited Regd.Off.: Shop No. 1, Rajul Apartments, 9, Harkness Road, Walkeshwar, Mumbai - 400006 CIN: L51909MH1989PLC138292 Website: www.vrwoodart.com E-mail: investors@vrwoodart.com Tel.: 022-43514444

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUAI			pt EPS data
	Quart	Half Year Ended	
Particulars	Sept 30, 2024	Sept 30, 2023	Sept 30, 2024
	Unaudited	Unaudited	Unaudited
Total Income from Operations	0.00	0.00	0.00
Net profit/ (loss) for the period (before Tax and Exceptional and/or Extraordinary item)	(1.89)	(2.00)	(3.85)
Net profit/ (loss) for the period before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary item)	(1.89)	(2.00)	(3.85)
Net profit/ (loss) for the period after Tax and Exceptional and/or Extraordinary item)	(1.89)	(2.00)	(3.85)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1.89)	(2.00)	(3.85)
Paid-up Equity Share Capital (face value ₹10/- per share)	1,489.18	1,489.18	1,489.18
Reserves excluding revaluation reserves (other Equity)	-	-	-
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-	-	-	-
Basic:	(0.01)	(0.01)	(0.03)
Diluted:	(0.01)	(0.01)	(0.03)

Place : Mumbai Date: November 11, 2024

The above is an extract of the detailed format of statement of the Quarterly Financial Results filed with I he above is an extract of the detailed format of statement of the Quarterly Financial Results filled wilf the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed financial results and this extract were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on November 11, 2024. The full format of the Statement of Financial Results are available on the Company's website (www.vrwoodart.com) and on the website of BSE Limited (www.vrwoodart.com) and on the website of BSE Limited (www.vrwoodart.com).

(www.bseindia.com).
The Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024 have been subjected to limited review by the statutory auditors. The figures for the previous reporting period have been regrouped/re-classified wherever necessary, to make them comparable.

> By Order of the Board For V.R.Woodart Limited

Whole-time Director

Place: Mumbai. Date: 11th November, 2024

Place: Mumbai

Date: November 11, 2024



यूपीएल लिमिटेड वित्त वर्ष 25 की दूसरी तिमाही के दौरान घाटा बढ़कर ४४३ करोड़ रुपये हुआ

रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजिज दूसरी तिमाही में शुद्ध लाभ पिछले साल के मुकाबले 74 प्रतिशत बढा ₹ 820.5 ਧਿਲ

आईनॉक्स इंडिया 1,189.2 1,184.2 1,130

छोटे टर्मिनल की स्थापना के लिए ठेका मिला

एचएफसीएल

128.1— 130 भारतनेट के चरण 3 के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली बोलीदाता के रूप में उभरी 122 ₹ 126.8 पिछला बंद भाव 118 ₹ 128.1 आज का बंद भाव



संक्षेप में

स्विगी ने 2 नियुक्तियों से टीम का दायरा बढाया

फूड डिलिक्सी एवं ग्रोसरी डिलिक्सी प्लेटफॉर्म स्विगी ने दो प्रमुख नियुक्तियों के साथ अपनी नेतृत्व टीम के विस्तार की घोषणा की है। इन नियुक्तियों के जरिये कंपनी ने अपने फूड डिलिवरी एवं क्विक कॉमर्स वर्टिकलों में परिचालन मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा है। शलभ श्रीवास्तव को स्विगी में ड्राइवर ऑर्ग का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्ति किया गया है। उन्हें ई-कॉमर्स, रिटेल, टेक्नोलॉजी, कुंसल्टिंग् और निवेश बैंकिंग में 25 वर्ष का अनभव है। हाल में श्रीवास्तव फ्लिपकार्ट में उपाध्यक्ष थे। हरि कुमार जी को स्विगी इंस्टामार्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और चीफ बिजनेस ऑफीसर के रूप में शामिल किया गया है। उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में व्यवसाय आगे बढ़ाने का एक दशक से अधिक का अनुभव है। स्विगी में शामिल होने से पहले, कुमार फ्लिपकार्ट में थे. जहां उन्होंने इलेक्टॉनिक्स अप्लायंसेज और ग्रोसरी सहित प्रमुख श्रेणियों का नेतृत्व किया।स्विगी में वह ग्राहक-केंद्रित विकास में तेजी लाने और क्विक कॉमर्स क्षेत्र में इंस्टामार्ट की स्थिति को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। *बीएस*

ऑनलाइन गेमिंग बाजार 23 फीसदी बढ़ा

ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए गए नए 28 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर के बावजूद वित्त वर्ष 2024 में भारतीय गेमिंग बाजार एक साल पहले के मुकाबले 23 फीसदी बढ़ा और बीते वित्त वर्ष में इसका राजस्व 3.8 अरब डॉलर हो गया। गेमिंग पर केंद्रित वेंचर कैपिटल फर्म लिमकाई की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है।इन ऐप खरीदारी और विज्ञापन राजस्व में भी वृद्धि बरकरार रहने के साथ उम्मीद जताई जा रही है कि वित्त वर्ष 2029 तक यह गेमिंग बाजार 9.2 अरब डॉलर का आंकड़ा पार कर लेगा। लुमिकाई की स्टेट ऑफ़ इंडिया इंटेरैक्टिव मीडिया ऐंड गेमिंग रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय गेमिंग बाजार 20 फीसदी की पांच वर्षीय चक्रवृद्धि सालाना दर से बढ़ रहा है।

एमेजॉन, फ्लिपकार्ट की हिंडाल्को का लाभ 78% बढ़ा जांच ने पकड़ी रफ्तार

■छ ई-कॉमर्स कंपनियों के छ ई-कॉमसं कंपानयां क विक्रेताओं पर छापेमारी के बाद कथित तौर पर विदेशी निवेश नियमों की अवहेलना के आरोप में आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी अब एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के अधिकारियों को तलब कर सकते हैं। वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने यह जानकारी दी है।

इस कार्रवार्ड से वॉलमार्ट के निवेश वाली फ्लिपकार्ट और एमेजॉन पर नियामकीय जांच तेज होने का संकेत मिलता है, जब भारत के 70 अरब डॉलर के ई-कॉमर्स बाजार में उनकी बिक्री काफी तेजी से बढ़ रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया था कि जांच एजेंसी ने यह भी पाया था कि दोनों कंपनियों ने कुछ चुनिंदा विक्रेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए कानूनों का उल्लंघन भी किया है।

हालांकि, फ्लिपकार्ट और एमेजॉन का कहना है कि वे पूरी तरह से भारतीय कानून का पालन कर रही है मगर प्रवर्तन निदेशालय वर्षों से उन आरोपों की जांच कर रहा है जिसमें कंपनियां चुनिंदा किर रहा है जिसमें अभागवा युगया विक्रेताओं के जिस्ये वस्तुओं के भंडार पर नियंत्रण रखती है। भारतीय कानून में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को उन वस्तुओं का भंडार करने से मनाही है जिन्हें वे अपनी वेबसाइट पर बेच सकते हैं, जिससे उन्हे केवल विक्रेताओं का बाजार चलाने के

लिए मजबूर होना पड़ता है। एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के विक्रेताओं पर बीते हफ्ते छापेमारी के बाद केंद्रीय



नियामकीय कार्रवाई में आई तेजी

■ नियामकीय जांच बढने पर एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के अधिकारियों को बुलाया जाएगा

■ ई-कॉमर्स कंपनियों पर निवेश

एजेंसी अब कंपनी के अधिकारियों पर . समन जारी करने का विचार कर रही है और ल छापेमारी के दौरान विक्रेताओं से जब्त किए गए दस्तावेज की समीक्षा कर रही है। मामले में सीधे तौर पर शामिल एक

वरिष्ठ सरकारी सूत्र ने सोमवार को यह

हालांकि छापेमारी की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है इसलिए सरकारी सत्र ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बतागा कि तलाणी णनिवार तक चली और नियमों का उल्लंघन किया गया है।

पीरजादा अबरार

बेंगलूरु, ११ नवंबर

ई-कॉमर्स फर्म के भारतीय मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म एमेजॉन

सेलर सर्विसेज ने पिछले वित्त वर्ष (2023-24) में परिचालन

(2023-24) में परिचालन राजस्व में 14 प्रतिशत का इजाफा

दर्ज किया और यह 25.406 करोड

बिजनेस इंटेलीजेंस फर्म टॉफलर

नियमों के उल्लंघन का आरोप सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी

कम से कम पांच साल के कारोबारी आंकड़ों को भी देखेगी

अधिकारी ने बताया कि निदेशालय कम से कम पिछले पांच वर्षों में विकेताओं के कारोबारी आंकड़ों और ई-कॉमर्स कंपनियों के साथ उनके लेनदेन की भी जांच करेगा। हालांकि एमेजॉन फ्लिपकार्ट और प्रवर्तन निदेशालय ने इस बारे में पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दिया है।

उल्लेखनीय है कि डेटम इंटेलिजेंस का कॉमर्स में फ्लिपकार्ट की 32 फीसदी और एमेजॉन की 24 फीसदी बाजार हिस्सेदारी , जो 834 अरब डॉलर के खुदरा क्षेत्र का करीब 8 फीसदी है।

कॉपर और एल्युमीनियम बनाने वाले हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का सितंबर तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ 78 फीसदी बढ़ गया। कंपनी की यह बढ़त जमीन की बिक्री और बेहतर परिचालन प्रदर्शन के कारण हुआ है। सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कंपनी के अधिकारियों ने कॉपर और एल्युमीनियम के संयंत्रों के लिए अगले दो से तीन वर्षों में 4 से 5 अरब डॉलर निवेश करने की योजना के बारे में भी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कंपनी ने पंजीगत व्यय योजनाओं में करीब अरब डॉ्लर का इजाफा किया है। समीक्षाधी्न तिमाही में हिंडाल्को का शुद्ध लाभ 3,909 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले के मुकाबले 78 फीसदी अधिक है। इसी अवधि के दौरान धातु विनिर्माता का राजस्व भी 7.4 फीसदी बढ़कर 58,203 करोड़ रुपये रहा। हिंडुाल्को के लाभ को अन्य आय में वृद्धि से दम मिला है, जो भूखंड बिक्री के कारण दोगुना से अधिक होकर 1,075 करोड़ रुपये रही। कंपनी ने बताया कि समेकित एबिटा में 49 फीसदी बढ़कर 9,100 करोड़ रुपये रहा, जिसमें से भारतीय कारोबार का एबिटा एक साल पहले के मुकाबले दोगुना होकर 5,139 करोड़ रुपये रहा।

एनएमडीसी का शृद्ध लाभ 17 प्रतिशत बढ़ा सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी एनएमडीसी का

एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष को जुलाई-सितंबर तिमाही में 16.66 प्रतिशत बढ़कर 1,195.63 करोड़ रुपये रहा है।पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 1,024.86 करोड़ रुपये रहा था। एनएमडीसी ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसकी कल आमदनी सितंबर तिमाही में 22 प्रतिशात वहकर 5,279.68 करोड़ रुपये रही है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 4,335.02 करोड़ रुपये थी। कंपनी के निदेशक मंडल ने 2:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने को भी मंजूरी दे दी है।इसके अलावा, अधिकृत शेयर पूंजी को 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने को भी मंजूरी दे दी गई है।

ओएनजीसी का शुद्ध लाभ 17 प्रतिशत बढ़ा

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल ऐंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में 17 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि जुलाई-सितंबर तिमाही में एकल आधार पर उसका शुद्ध लाभ बदकर 11,948.02 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 10,238.10 करोड़ रुपये था। यह अप्रैल-जून तिमाही के मुनाफे 8.938.10 करोड़ रुपये से अधिक रहा है। कच्चें तेल की कीमतों में गिरावट के बाद सरकार द्वारा अप्रत्याशित लाभ पर कर में कमी करने की वजह से कंपनी का मनाफा बढा है।

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का लाभ 9.6 फीसदी घटा

ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का एकीकृत शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में 9.6 फीसदी घट गया, जिस पर जिसों की गंभीर महंगाई का असर पड़ा और इस वजह से मांग कमजोर हुई। कंपनी का शृद्ध लाभ 531.5 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का कुल राजस्व इस अवधि में 5.1 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 4,713.6 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, साथ ही वॉल्यम में 8 फीसदी की बढोतरी हुई। कंपनी का एबिटा 10.6 फीसदी घटकर 825.9 करोड़ रुपये रहा।

पीऐंडजी होम का मुनाफा 37 प्रतिशत बढ़ा

प्रॉक्टर ऐंड गैंबल होम प्रोडक्ट्स लिमिटेड का वित्त वर्ष 2023-24 में शुद्ध लाभ 36.8 प्रतिशत बढ़कर 573.6 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी द्वारा आरओसी (कंपनी पंजीयक) को दी गई सूचना के अनुसार, इस दौरान उसकी परिचालन आय 4.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 8.756.8 करोड़ रुपये हो गई। कारोबार असचना लर द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय आंकडों

के अनसार दैनिक उपयोग की घरेल वस्तएं बनाने (एफएमसीजी) वाली इस कंपनी की कुल आय (जिसमें अन्य आय भी शामिल है) मार्च 2024 को समाप्त वित्त वर्ष में 11.2 प्रतिशत बढ़कर 9,413.02 करोड़ रुपये हो गई।

गॉडफ्रे फिलिप्स का लाभ 23 प्रतिशत बढा

सिगरेट बनाने वाली कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की सितंबर में समाप्त दूसरी तिमाही में 23 प्रतिशत बढ़कर 248.31 करोड़ रुपये रहा है।पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 202.06 करोड़ रुपये रहा था। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड (जीपीआईएल) ने सोमवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसकी एकीकृत परिचालन आय समीक्षाधीन तिमाही में 1,651.42 करोड़ रुपये रही है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,374.55 करोड़ रुपये थी।सितंबर तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 1,415.89 करोड़ रुपये रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 1,194.03 करोड़ रुपये थी।

बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 63 फीसदी बढ़ा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) का शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर की दूसरी तिमाही में 63 फीसदी बढ़कर 2,374 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। बैंक ने सोमवार को कहा कि गैर-ब्याज अपास्ती बढ़ने से उसका मुनाफा बढ़ा है। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बेंक ने 1,458 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। बीओआई ने कहा कि उसकी कुल आमदनी सितंबर तिमाही में बढ़कर 19,872 करोड़ रुपये रही है जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 16,659 करोड़ रुपये रही थी। बैंक की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) समीक्षाधीन तिमाही में चार प्रतिशत

श्री सीमेंट का एकीकृत लाभ 83 फीसदी घटा

बढ़कर 5,986 करोड़ रुपये रही।

श्री सीमेंट का एकीकृत शुद्ध लाभ सितंबर 2024 में समाप्त तिमाही में 83 फीसदी घट गया, जिस पर कमजोर मांग व राजस्व का असर पड़ा। तिमाही के दौरान कंपनी का शुद्ध लाभ एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 83 फीसदी घटकर 76.44 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी का परिचालन राजस्व इस अवधि में 21 फीसदी घटकर 4,054.17 करोड़ रुपये रह गया।बिक्री वॉल्यूम घटने की वजह से राजस्व में नरमी आई। कंपनी ने एक बयान में कहा, मॉनसून का लंबे समय तक टिके रहने और कीमतों में नरमी के चलते मांग के चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद कंपनी का ध्यान ब्रांड इक्ववी बनाए रखने, उत्पादों को प्रीमियम बनाने आदि से कंनपी को तिमाही आधार पर अपनी बिक्री कीमतें बरकरार रखने में

ओरिएंट ग्रीन पावर का लाभ 11 प्रतिशत घटा

ओरिएंट ग्रीन पावर का चालू वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर तिमाही का एकीकृत शुद्ध लाभ 11 प्रतिशत घटकर 66.46 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने एक साल पहले इसी अवधि में 75 करोड़ रुपये का मनाफा कमाया था। ओरिएंट ग्रीन पावर ने सोमवार को बयान में कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 126.13 करोड़ रुपये हो गई, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 124.10

फ्लिपकार्टः डिलिवरी बेडे में 10,000 ईवी एमेजॉन इंडिया की मार्केटप्लेस

ई-कॉमर्स क्षेत्र की कंपनी फ्लिपकॉर्ट ने अपने ग्राहकों तक डिलिवरी में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया है। इसके तहत उसने अपने बेड़े में 10,000 से ज्यादा ईवी तैनात किए हैं। कंपनी ने कहा कि वह क्लाइमेट ग्रुप की ईवी100 पहल के तहत साल 2030 तक ग्राहकों के लिए पूरी तरह इलेक्ट्रिक

लॉजिस्टिक अपना लेगी।

फिलहाल फ्लिपकार्ट के इलेक्टिक बेडे का 75 प्रतिशत हिस्सा बड़े शहरों में केंद्रित है। इसमें दिलली, बेंगलूरु, हैदराबाद और चेन्नई शामिल हैं। अगस्त में फ्लिपकार्ट ने बताया था कि उसके 55 प्रतिशत से ज्याद किराना ऑर्डर ईवी के जरिए पूरे किए जा रहे हैं।इस साल

धिक मांग वाले सीजन के दौरान लखनऊ, सोनीपत, लुधियाना, भुवनेश्वर, मालदा, हुबली और विजाग समेत मझोले शहरों में 16 प्रतिशत से ज्यादा किराना डिलिवरी पूरी करने के लिए अपने ईवी बेड़े का उपयोग किया। ईवी को रणनीतिक रूप से अपनाने के कारण परिचालन दक्षता में खासा

इजाफा हुआ है।

त्योहारी अवधि के दौरान उसने अ

के आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष के दौरान कंपनी ने अपना शुद्ध नुकसान भी 28 प्रतिशत तक घटाकर 3,469 करोड़ रुपये कर लिया। वित्त वर्ष के लिए क्ंपनी का कल खर्च 29.062 करोड रुपये रहा। अन्य प्रमुख लागत में 3,140.6 करोड़ रुपये का मूल्यहास Regd. Office : D-19-20, Panki, Industrial Area और अन्य खर्च शामिल हैं। इसमें Kanpur - 208022 Ph.: +91 512 2691113-6; Fax: +91 512 2691117, Email: secretary@kanplas.com; website: www.kanplas.com 3,586 करोड़ रुपये का विज्ञापन और बिक्री प्रोत्साहन खर्च और 7.488 करोड़ रुपये का परिवहन एवं वितरण खर्च शामिल है।एमेजॉन

एमेजॉन सेलर सर्विसेज ने पिछले वित्त वर्ष परिचालन राजस्व में 14 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया

राजस्व थर्ड-पार्टी विक्रेता सेवाओं. सदस्यता सेवाओं (एमेजॉन प्राइम सहित) और मार्केटप्लेस से जुड़ी सेवाओं से हासिल करती है।

कंपनी संबंधित पक्षों को मार्केटिंग सहायता सेवाएं मुहैया करती है। उसे रॉयल्टी राजस्व भी मिलता है। कंपनी की प्रतिस्पर्धी फ्लिपकार्ट इंटरनेट का राजस्व सालाना आधार पर 21 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2024 में 17,907.3 करोड़ रुपये रहा।टॉफलर के अनुसार फ्लिपकार्ट इंटरनेट का नुकसान 41 प्रतिशत घटकर 2,358 करोड़ रुपये रह गया। एमेजॉन को क्विक कॉमर्स कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का

PLASTIPACK CIN: L25209UP1971PLC003444

सार्वजनिक सूचना

कोहली एण्ड सोबी, एडवोकेट ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगरमा, नई दिल्ली -110024

ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का गुगतान करके अपने गिर रवे गहनों को छुड़ा सकते हैं। ग्राहक **ईमेल आईडीः recoverynorth@muthootgroup.com** १९४४८६६६६६ **१७४४५**२४६१ पर कॉल करके संघर्क कर सकते हैं।

EXTRACT OF THE CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED 30" SEPTEMBER, 2024

I		Quarter	Quarter	Half Year
SL.	PARTICULARS	Ended	Ended	Ended
NO.		30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited
1.	Total Income from operations (net)	15,361.06	12,243.63	28,987.32
2.	Net Profit from Ordinary Activities before Tax	249.86	312.62	74.16
3.	Net Profit from Ordinary Activities after Tax	166.34	223.99	28.84
4.	Net Profit for the period after Tax (after	166.34	223.99	28.84
	Extraordinary Items)			
5.	Total Comprehensive Income for the period	171.04	223.53	28.84
6.	Equity Share Capital	2,147.38	2,147.38	2,147.38
7.	Earning per Share (before / after extraordinary			
	items) (of Rs. 10/-each) (not annualised)			
	-Basic	0.77	1.04	0.13
	-Diluted	0.77	1.04	0.13
	Key Standalone Financial Information fo	r the above m	entioned peri	ods
1.	Total Income from operations (net)	15,357.80	12,156.49	28,985.85
2.	Profit Before Tax	227.82	315.07	72.98
3.	Profit After Tax	144.30	226.44	27.66

For and on behalf of the Board of Directors Sd/-

भारतीय दवा बाजार में 6 प्रतिशत से ज्यादा की विद्ध

इकाई का शुद्ध नुकसान घटा

नई दिलली, 11 नवंबर

औषधि आईपीएम) में अक्टूबर 2024 के दौरान 6.1 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि दर्ज की गई है और प्रमुख उपचारों में अच्छी मूल्य वृद्धि देखी गई है।बाजार अनसंधान निकाय फामरिक की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है। इन उपचारों में से कार्डियक, डर्मेटोलॉजी और एंटी-डायबिटीज उपचार क्षेत्रों ने क्रमशः 11.5 प्रतिशत, प्रतिशत और 9.4 प्रतिशत की मल्य वृद्धि प्रदर्शित की है जिससे समूचे दवा

ब्राजार को बढ़ावा मिला है। यह मूल्य वृद्धि ऐसे समय हुई है जब दवा बाजार ने वॉल्यूम वृद्धि में 1.8 प्रतिशत की कमी दर्ज की है। इस पर टिप्पणी करते हुए फामीरैक में उपाध्यक्ष (वाणिज्यिक) शीतल सापले ने कहा कि नई दवाओं और मल्य वृद्धि से इस महीने बाजार वृद्धि विदावामिला है। अक्टूबर 2023

और सितंबर 2024 के बीच दवा बाजार का औसत कुल कारोबार (एमएटी - जो पिछले 12 महीनों का कुल कारोबार है) में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे बाजार में कुल कारोबार 2.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जबकि घरेलू बाजार में वॉल्यूम 0.3 प्रतिशत घट गया। कार्डियक, गैस्टोइंटेस्टाइनल और

एंटी-इंफेक्टिव जैसे प्रमुख उपचार क्षेत्रों की दवा बाजार में करीब 38 प्रतिशत हिस्सेटारी है। इनके प्रमण्टी में क्रमशः 12.2 प्रतिशत, 9.1 प्रतिशत और 9.1 प्रतिशत की मजबूत वॉल्यूम वृद्धि देखी गई है। हालांकि प्रमुख कंपनियों ने अक्टूबर के दौरान घरेलू बाजार में सामान्य मासिक मूल्य वृद्धि दर्ज की है।लेकिन न्यूट्रिशिया (30.6 प्रतिशत), बेयर (19.6 प्रतिशत), कोरोना (16.4 प्रतिशत) और ग्लेनमार्क (13.8 प्रतिशत) ने शीर्ष 40 कंपनियों के बीच बाजार में बड़ी मासिक मूल्य वृद्धि दर्ज की है।

अवानस्ट्रेट इंक में 55 करोड डॉलर का निवेश करेगी वेदांत

बीएस संवाददाता मुंबई, ११ नवंबर

धातु क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वेदांत अपनी समूह कंपनी और वैश्विक डिस्प्ले ग्लास विनिर्माता अवानस्ट्रेट इंक (एएसआई) में 50 करोड़ डॉलर के निवेश की योजना बना रही है। वेदांत ने इस साल की शुरुआत में ही इस कंपनी

में 98 फीमटी हिस्मेटारी हासिल

कंपनी ने कहा कि उसके रणनीतिक निवेश का लक्ष्य अवानस्ट्रेट के भीतर नवोन्मेष और विस्तार को बढ़ावा देना, शोध और विकास (आरऐंडडी) पर ध्यान केंद्रित करना और उन्नत डिस्प्ले ग्लास समाधान की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना है। अवानस्टेट की ताइवान, दक्षिण कोरिया और जापान में परिचालन



एवं आरऐंडडी क्षमताएं हैं। कंपनी का लक्ष्य सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी, वाहन डिस्प्ले और अन्य उच्च वृद्धि वाले क्षेत्रों में उन्नत पैकेजिंग और संभावित अनुप्रयोगों के लिए अगली पढ़ी के ग्लास उत्पादों के विकास में तेजी लाना है। इसके अलावा वेदांत ने कहा कि अवानस्टेट तकनीकी उन्नति और न्नत बाजार पेशकशों में सहायता के लिए सहयोगी साझेदार की भी खोल कर रही है।

वेदांत ने इस साल की शरुआत में ही इस कंपनी में 98 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की थी।

अवानस्ट्रेट इंक के वैश्विक प्रबंध निदेशक आकर्ष हेब्बर ने कहा । कंपनी विश्व में जल्द ही एडवांस्ड ग्लास तकनीक में प्रमख कंपनियों में से एक बन जाएगी।